

प्रेस

नोट

जनपद

रामपुर ।

दिनांक:.09.11.2022

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram@rampurpolice

थाना अजीमनगर:-सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने में 03 गिरफ्तार

दिनांक 08-11-2022 को श्रीमती किरन पत्नी श्री दर्शन लाल निवासी ग्राम मझरा बगडखॉ थाना अजीमनगर, रामपुर के घर में घुसकर विष्णु व उसके पिता मखन सिंह, माँ राजकुमारी, बहन लक्ष्मी व अन्य दो व्यक्तियों द्वारा वादिनी के पति के साथ मारपीट, गाली गलौच की गयी थी। इस सम्बंध में थाना अजीमनगर, रामपुर पर मु0अ0सं0-279/22 धारा 147,452,323,504 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था।

इसी क्रम में थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस वादिनी के पति से पूछताछ के लिए गाँव में गयी थी। इसी दौरान उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी। पुलिस द्वारा मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना अजीमनगर, रामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1 -विष्णु पुत्र मखन सिंह निवासी ग्राम मझरा बगडखा थाना अजीमनगर, रामपुर।
- 2 -राजकुमारी पत्नी मखन सिंह निवासी ग्राम मझरा बगडखा थाना अजीमनगर, रामपुर।
- 3 -लक्ष्मी पुत्री मखन सिंह निवासी ग्राम मझरा बगडखा थाना अजीमनगर, रामपुर।

थाना गंज:- गैंगेस्टर एक्ट में वाँछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर महोदय द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रामपुर के कुशल निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के नेतृत्व में दिनांक 09.11.2022 को थाना गंज पुलिस द्वारा थाना गंज पर पूर्व से पंजीकृत मु०अ०सं० -314/2022 धारा 3(1) गैगस्टर अधि० में वांछित अभियुक्त जसपाल पुत्र झांजन निवासी सिरसखेडा थाना मूंढापाण्डेय जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय समक्ष विधिक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. जसपाल पुत्र झांजन निवासी सिरसखेडा थाना मूंढापाण्डेय जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

अभियुक्त जसपाल का आपराधिक इतिहास

1. मु० अ० सं० 254/2022 धारा 411/414/420/413 भादवि

2. ई-एफआईआर नं० 14682/2022 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना
गांधी नगर जिला नार्थ ईस्ट दिल्ली

3. ई-एफआईआर नं० 15996/2022 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना
जाफराबाद जिला नार्थ ईस्ट दिल्ली

4. मु० अ० सं० 314/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1.श्री सुरेन्द्र सिंह पचौरी प्रभारी निरीक्षक थाना गंज रामपुर

2.उ०नि श्री जाकिर अली

3.कां० 1618 युवराज सिंह

4.कां० 736 प्रिंस शर्मा

थाना सिविल लाइन:-दहेज हत्या में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09-11-2022 को थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर पुलिस
द्वारा मु०अ०सं० 369/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व 3 /4 डीपी एक्ट में

वाँछित चल रहे अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी इन्द्रप्रस्थ कालौनी थाना सिविल लाईन जनपद-रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना शहजादनगर:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09-11-2022 को थाना शहजादनगर, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त राजेश यादव पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम बृजपुर थाना शहजादनगर, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयीं।